

शारीरिक दूरी बनाए रखने का अभ्यास करने में हमारी सहायता करें

कृपया अन्य व्यक्तियों से 1.5मी. की दूरी बनाए रखें



दूर-दूर रहना हमें एक-साथ रखता है

Coronavirus (COVID-19) के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया coronavirus.vic.gov.au/Hindi पर जाएं।

आइए हम सब 1.5मी.
की दूरी बना कर रखें



दूर-दूर रहना हमें एक-साथ रखता है

Coronavirus (COVID-19) के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया coronavirus.vic.gov.au/Hindi पर जाएं।

Authorised by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne



कृपया यहाँ खड़े हों



दूर-दूर रहना हमें एक-साथ रखता है

Coronavirus (COVID-19) के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया coronavirus.vic.gov.au/Hindi पर जाएं।

Authorised by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne



खुद की और दूसरों की रक्षा कीजिए

आप कैसे सहायता कर सकते हैं



जब अस्वस्थ हों तो घर पर रहें -
जाँच करवाएं



अपने हाथ धोएं - एक टिश्यु पेपर में या
अपने मुँह और नाक को अपनी कोहनी से
ढकते हुए खांसें या छींकें



अपनी दूरी बनाए रखें - आप जिन लोगों के
साथ रहते हैं उनके अलावा, अन्य व्यक्तियों
से 1.5मी. दूर रहें।

दूर-दूर रहना हमें एक-साथ रखता है

Coronavirus (COVID-19) के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया
coronavirus.vic.gov.au/Hindi पर जाएं।